



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 243 [नई दिल्ली, शनिवार, मई 19, 1984/वैशाख 29, 1906
No. 243] NEW DELHI, SATURDAY, MAY 19, 1984/VAISAKHA 29, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह असंग्रह संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 19 मई, 1984

कां० 392 (अ)/18ए/औ०वि०वि०अ०/84.—भारत सरकार के औद्योगिक विकास मंत्रालय के आदेश सं० कां० 725(अ)/18ए/औ०वि०वि०अ०/72, तारीख 25 नवम्बर, 1972 (जिसे हमें आगे उक्त आदेश कहा गया है) द्वारा मैमर्स इंडिया मशीनरी कम्पनी लिमिटेड, हावड़ा नामक सम्पूर्ण औद्योगिक उपक्रम का प्रबन्ध 24 नवम्बर, 1977 तक की, जिसके अन्तर्गत यह तारीख भी है के लिए प्रबन्ध ग्रहण करने के लिए एक प्रबन्ध बोर्ड को प्राधिकृत किया गया था;

और भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं० कां० 630 (अ)/18ए/औ०वि०वि०अ०/77, तारीख 24 अगस्त, 1977 द्वारा उक्त आदेश को उपांतरित किया गया था और भारत सरकार का औद्योगिक पुनर्गठन निगम लिमिटेड, कलकत्ता को उक्त उपक्रम का प्रबन्ध ग्रहण करने के लिए प्राधिकृत किया गया था;

और भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं० कां० 784 (अ)/18ए/औ०वि०वि०अ०/77, तारीख 24

नवम्बर, 1977, सं० कां० 747 (अ)/18ए/औ०वि०वि०अ०/79, तारीख 25 नवम्बर, 1979, सं० कां० 900 (अ)/18ए/औ०वि०वि०अ०/80 तारीख 21 नवम्बर, 1980, सं० कां० 827(अ)/18ए/औ०वि०वि०अ०/81, तारीख 24 नवम्बर, 1981, सं० कां० 343(अ)/18ए/औ०वि०वि०अ०/82, तारीख 24 मई, 1982, सं० कां० 833(अ)/18ए/औ०वि०वि०अ०/82, तारीख 24 नवम्बर, 1982, सं० कां० 371(अ)/18ए/औ०वि०वि०अ०/83, तारीख 21 मई, 1983, और सं० कां० 855(अ)/18ए/औ०वि०वि०अ०/83, तारीख 24 नवम्बर, 1983, द्वारा उक्त आदेश की अवधि 24 मई, 1984 तक, जिसके अन्तर्गत यह तारीख भी है, के लिए बढ़ा दी गई थी,

और अब, केन्द्रीय सरकार की राय में उक्त आदेश की अवधि तारीख 24 नवम्बर, 1984 तक की अवधि के लिए जिसके अन्तर्गत यह तारीख भी है, और बढ़ाया जाना लोकहित में समीचीन है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निदेश देती है कि उक्त आदेश 24 नवम्बर, 1984 तक, जिसके अन्तर्गत यह तारीख भी है की अवधि के लिए और प्रभावी रहेगा;

[कां० सं० 2(11)/80-सी०यू एस्०]

ए०पी० सरवत, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY
(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 19th May, 1984

S.O. 392(E)|18A|IDRA|84.—Whereas by the Order of the Government of India in the late Ministry of Industrial Development No. S.O. 725(E)|18A|IDRA|72, dated the 25th November, 1972 (hereinafter referred to as the said Order), a Board of Management was authorised to take over the management of the whole of Industrial Undertaking known as Messrs India Machinery Company Limited, Howrah, for a period of five years upto and inclusive of the 24th November, 1977;

And, whereas, the said Order was modified by the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 630(E)|18A|IDRA|77, dated the 24th August, 1977 and the Industrial Reconstruction Corporation of India Limited, Calcutta was authorised to take over the management of the said undertaking;

And, whereas, the duration of the said Order was extended by the Orders of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial

Development) No. S.O. 784(E)|18A|IDRA|77, dated the 24th November, 1977, No. S.O. 747(E)|18A|IDRA|79, dated the 22nd November, 1979, No. S.O. 900(E)|18A|IDRA|80, dated the 21st November, 1980, No. S.O. 827(E)|18A|IDRA|81, dated the 24th November, 1981, No. S.O. 343(E)|18A|IDRA|82, dated the 24th May, 1982, No. S.O. 833(E)|18A|IDRA|82, dated the 24th November, 1982, No. S.O. 371(E)|18A|IDRA|83, dated the 21st May, 1983 and No. S.O. 855(E)|18A|IDRA|83, dated the 24th November, 1983 for a further period upto and inclusive of the 24th May, 1984;

And, whereas, the Central Government is of opinion that it is expedient in the public interest that the duration of the said Order should be extended for a further period upto and inclusive of the 24th November, 1984;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (2) of Section 18A of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby directs that the said Order shall continue to have effect for a further period upto and inclusive of the 24th November, 1984.

[File No. 2(11)|80-CUS]

A. P. SARWAN, Jt. Secy.